



प्रेसनोट थाना दिहौली जनपद धौलपुर

डाँ0 उमाकान्त गुप्ता अपहरण काण्ड में जनपद आगरा में वाँछित चल रहे रू0 25,000 का इनामी अभियुक्त जनपद धौलपुर थाना दिहौली पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार...

➤ जनपद धौलपुर थाना दिहौली पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही-

दिनांक 24.07.2021 को जनपद धौलपुर थाना दिहौली पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग में व्यस्त थी, इस दौरान मुखबिर खास सूचना मिली कि मछरिया चौराहे पर एक व्यक्ति जो यू.पी. का बदमाश है, जिसके पास अवैध हथियार है जो वारदात करने की फिराक में है, यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये जनपद धौलपुर पुलिस टीम द्वारा बताये गये स्थान मछरिया चौराहे पर पहुँचकर एक बारगी की दबिश देकर घेर घोट कर अभियुक्त भोला को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 कट्टा, 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में जनपद धौलपुर थाना दिहौली पर मु0अ0सं0 11/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➤ पूछताछ का विवरण:-

जनपद धौलपुर पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम:- भोला पुत्र मानसिंह निवासी कछपुरा थाना निबोहरा जनपद आगरा जाति ठाकुर बताया। कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि मैं स्वयं जनपद आगरा यू.पी. से डाँक्टर उमाकान्त गुप्ता के अपहरण काण्ड का बदमाश बदन सिंह का साथी हूँ।

विशेष:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा अभियुक्त भोला उपरोक्त पर रू0 25,000 का इनाम घोषित किया गया था।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01. भोला पुत्र मानसिंह निवासी कछपुरा थाना निबोहरा जनपद आगरा।

➤ अभियुक्त भोला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 471/21 धारा 364ए भा0द0वि0 थाना एत्मादौला जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं0 191/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दिहौली जनपद धौलपुर राजस्थान।

➤ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. थानाधिकारी बीधाराम थाना दिहौली जनपद धौलपुर (राजस्थान)।

02. है0का0 702 योगेन्द्र थाना दिहौली जनपद धौलपुर (राजस्थान)।

03. का0 733 मनोज कुमार थाना दिहौली जनपद धौलपुर (राजस्थान)।

मीडिया सेल जनपद आगरा।

